



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 58] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 12, 1973/फाल्गुन 21, 1894

No. 58] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 12, 1973/PHALGUNA 21, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 12th March 1973

G. S. R. 167 (E)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) read with clause (h) of sub-rule (3), of rule 114 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for securing the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, and for securing the equitable distribution and availability of jute textiles at fair prices, hereby fixes the price mentioned in column (3) of the First Schedule appended to this Order as the maximum ex-factory price at which the varieties of jute textiles mentioned in the corresponding entries in column (2) of the said schedule shall be purchased or sold during the month of March, 1973.

Provided that the price so fixed in respect of the variety of jute textiles mentioned in Serial No. 1 of the First Schedule appended to this Order shall be reduced to the extent specified in column (2) or column (3) of the second Schedule appended to the Order in respect of the minimum breaking strength specified in the corresponding entries in column (1) of the Second Schedule.

Explanation For the purpose of this Order, the price specified in the First or Second Schedule appended to this Order shall be exclusive of the duty of excise and the sales tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser at actuals.

2. Nothing in this Order shall apply to any quantity of jute textiles which may be exported during the period specified in paragraph 1 pursuant to any contract entered into before the commencement of this Order.

THE FIRST SCHEDULE

S.No.	Category of jute bags	Maximum ex-factory price
1	2	3
1	Standard B. Twill bags of the size 43½" × 26½" WIP 44" × 26½" HD 2½ lbs. per bag, 6 × 8, 3 blue, dry sown and conforming in all other respects to the current ISI specification (No. IS:2566—1965 as amended upto-date).	Rs. 255.80 per 100 bags.
2	DW Flour Bags 43½" × 28" HD weight in proportion 56" × 28" HD, 2½ lbs. per bag 7 × 9 or 8 × 8 plain dry sewn.	Rs. 232.05 per 100 bags.

THE SECOND SCHEDULE

Minimum breaking strength	Reduction in price per 100 bags		
	warp	weft	weft
1	2	3	
ISI Standard Breaking Strength	160 kg. Rs.	165 kg. Rs.	
160	..	0.55	
155	0.39	1.02	
150	1.06	1.50	
145	1.62	2.11	
140	2.24	3.42	
135	2.86	4.27	
130	3.42	4.27	

[No. 18012/1/72-Tex (D)]

B. D. KUMAR,
Jr. Secy.,

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 12 मार्च 1973

जी० एस० आर० 167(अ).—भारत रक्षा अधिनियम 1971 के नियम 114 के उपनियम (3) के खण्ड (एच) के साथ पठित उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ऐसी राय देने पर कि समाज के जीवन के लिये अत्यावश्यक वस्तुओं की सफाई तत्सम्बन्धी सेवाओं को जारी रखने के उद्देश्य में और पटसन वस्त्रों के व्यापारित वितरण और उचित मूल्यों पर उनकी उपलब्धि के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक और उचित है, एतद्वारा इस आदेश से संलग्न प्रथम अनुसूची के कालम (3) में उल्लिखित मूल्य ऐसे अधिकतम एक्स-फैक्टरी मूल्य के रूप में निश्चित करनी है जिस पर उक्त अनुसूची के कालम 2 की तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित पटसन के वस्त्रों की किस्में मार्च 1973 के मास में खरीदी या बेची जायेगी ।

परन्तु इस आदेश से संलग्न प्रथम अनुसूची के क्रम संख्या 1 में उल्लिखित पटसन के वस्त्रों की किस्म के बारे में इस प्रकार से निश्चित किए गए मूल्य को इस आदेश से संलग्न द्वितीय अनुसूची के कालम (1) की तदनुसूची प्रविष्टियों में निदिष्ट न्यूनतम धारण क्षमता (वैकिंग स्ट्रैन्थ) के अनुसार उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम (2) या कालम (3) में बताई गई सीमा तक बढ़ाया जायेगा ।

स्पष्टीकरण.— इस आदेश के प्रयोजन के लिए इस आदेश से संलग्न प्रथम या द्वितीय अनुसूची में निदिष्ट मूल्यों में उत्पादन शुल्क और विक्री कर शामिल नहीं है जिन्हें खरीदार को ही वास्तविक आंकड़ों के आधार पर एक्स-फैक्टरी मूल्य के अतिरिक्त अदा करना होगा ।

2. इस आदेश में दी हुई कोई भी ग्राहक पटसन वस्त्रों की ऐसी किसी भी मात्रा पर लागू नहीं होगी जो इस आदेश के लागू होने से पहले किये गये किसी भी ठेके के अनुसरण में पैरा 1 में निदिष्ट अवधि के दौरान निर्यात की गई हो ।

प्रथम अनुसूची

क्रम संख्या	पटसन के बोरो का दर्जा	अधिकतम एक्स-फैक्टरी मूल्य
1.	स्टैण्डर्ड बी ट्रबिल बोरे-माइज $43\frac{1}{2}'' \times 26\frac{1}{2}''$ जिसका वजन $44'' \times 26\frac{1}{2}''$ एच डी $2\frac{1}{2}$ पौंड प्रति बोरी, 6×8 , 3 ब्रू खुशक सिली हुई के अनुपात में हो और जो शेष सभी प्रकार से वर्तमान आई० एम० आई० की विविधियों के अनुरूप हों (संख्या आई० एम० 2566—1965 अद्यतन यथामंशोधित) ।	255.80 रुपये प्रति 100 बोरे
2.	डी-डब्ल्यू आटे के बोरे $43\frac{1}{2}'' \times 28''$ एच० डी० अनुपात के अनुसार वजन $56'' \times 28''$ एच० डी० $2\frac{1}{2}$ पौंड प्रति बोरा 7×9 या 8×8 सादा खुशक सिला हुआ ।	232.05 रुपये प्रति 100 बोरे

द्वितीय अनुसूची

प्राण क्षमता	प्रति 100 बोरों के मूल्य में कमी	
(ब्रेकिंग स्टैग्स)	(ताने में)	(बाने में)
आई० एम० आई० स्टैंडर्ड (ब्रेकिंग स्टैग्स)	160 किलोग्राम	165 किलोग्राम
	रुपये	रुपये
160	—	0.55
155	0.39	1.02
150	1.06	1.50
145	1.62	2.11
140	2.24	3.42
135	2.86	4.27
130	3.42	—

[संख्या 18012/1/72-डैक्स (डी)]

बी० डी० कुमार, संयुक्त सचिव ।